



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1945 (श0)

(सं0 पटना 87) पटना, बृहस्पतिवार, 1 फरवरी 2024

सं० 12/प०-विविध-08-138/2023-1701-A(12)

(BSACS-I-09015/14/2017-ICTC)

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

21 नवम्बर 2023

विषय:- बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS)के अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को स्वास्थ्यविभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति/ जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत “आशा” एवं अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों के सदृश्य, दिनांक-03.02.2016 के प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत रू० 4,00,000.00 (चार लाखरूपये) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) राज्य में एड्स के मरीजों से संबंधित जागरूकता, परामर्श, जाँच, बचाव, सहयोग एवं उपचार के साथ ही समाज के मुख्यधारा से जोड़ने संबंधी प्रयास सहित चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाती है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवा में गुणात्मक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है।

2. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-86(12) दिनांक:-03.02.2016 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत “आशा” एवं अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों (आयुष एवं दंत चिकित्सक सहित) की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत रू० 4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान का निर्णय लिया गया था, परन्तु इसमें बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के कर्मी शामिल नहीं थे जबकि इसमें इनके भी सदृश्य कर्मियों को शामिल रहना चाहिए था।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में, मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-157(12) दिनांक-17.02.2020 द्वारा NACO, नई दिल्ली के अन्तर्गत BSACS के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उप केन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार की योजनान्तर्गत रू० 4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति दी गयी परन्तु यह संकल्प अपने निर्गत होने की तिथि से प्रभावी है। फलतः योजना प्रारम्भ की तिथि दिनांक-03.02.2016 से दिनांक-16.02.2020 के मध्य बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अनुबंध

- पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
4. वर्णित स्थिति में यह अपेक्षित है कि बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को भी राज्य सरकार के योजनान्तर्गत दिनांक-03.02.2016 के प्रभाव से ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाय।
 5. उल्लेखनीय है कि दिनांक-03.02.2016 से 16.02.2020 की अवधि में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति में अनुबंध पर कार्यरत कुल सात कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हुई है। रुपये 4.00 लाख (चार लाख रुपये) की दर से इस पर कुल रू0 28.00 (अठाईस लाख) का व्यय भार आने की संभावना है।
 6. इस व्यय का वहन भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न पदाधिकारियों/कर्मियों के सदृश्य उसी मुख्य/उपमुख्य/लघु/उपशीर्ष आदि के विषय शीर्ष-37 01 अनुग्रह अनुदान से किया जायेगा।
 7. तदनुसार बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत "आशा" एवं अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों के सदृश्य, दिनांक-03.02.2016 के प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत रू0 4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
 8. प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुधीर कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 87-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>